



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 1—मई 7, 2010 (वैशाख 11, 1932)

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1—MAY 7, 2010 (VAISAKHA 11, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 9 अप्रैल 2010

सं. 11/1/(1)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग, बेंगलूर में श्री एन. पट्टाभि रामन को अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.04.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एम. नवमणि, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ए-12025/03/2010-प्रशा. II--राष्ट्रपति जी, सुश्री बिदेश्वरी राय को, सार्वजनिक सूचना अवसंरचना एवं नव-प्रवर्तन पर प्रधानमंत्री के सलाहकार के निजी स्टाफ में, सह-सत्रावसानी आधार पर, पीबी-3 (15,600--39,100 रुपए) + 6,600/- रुपए ग्रेड वेतन में दिनांक 08.03.2010 के पूर्वाह्न से सार्वजनिक सूचना अवसंरचना एवं नव-प्रवर्तन पर प्रधानमंत्री के सलाहकार की इच्छा तक अथवा उनके कार्यालय छोड़ने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. ए-37012/3/2008-वि.सा.प्र.(प्र.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में संपादक श्री अनूप कुमार वाष्णीय को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तारीख 05 अप्रैल, 2010 (पूर्वाह्न) से 04 जुलाई, 2010 तक, तीन मास की अवधि के लिए या अगले आदेश तक 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड + 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान संपादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री वाष्णीय को प्रधान संपादक के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जाएगा।

कुलदीप कुमार, उप सचिव

सं. ए-37012/3/2008-वि.सा.प्र.(प्र.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में सहायक संपादक श्री जुगल किशोर को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में दिनांक 05 अप्रैल, 2010 (पूर्वाह्न) से 04 जुलाई, 2010 तक, तीन मास की अवधि के लिए या अगले आदेश तक 15,600--39,000/- रुपए के वेतन बैंड + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर संपादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री जुगल किशोर को संपादक के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जाएगा।

कुलदीप कुमार, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मार्च 2010

सं. 14016/10/2009-यू.टी.एस.-II--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (सिविल सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निम्नलिखित फोडर ग्रेड अधिकारियों को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर 9,300--34,800/- रुपए (ग्रेड पे-4,800/- रुपए) के वेतनमान में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त किया है :-

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि	संघ राज्य क्षेत्र का नाम जहां नियोजित है
----------	-----	-----------	--

1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	ओ. पी. अरोड़ा	08.08.1950	दिल्ली
2.	सुरिन्द्र कुमार	12.07.1954	दिल्ली
3.	धर्म वीर	30.12.1950	दिल्ली
4.	शाम चन्द	20.10.1954	दिल्ली
5.	मदन लाल	08.06.1951	दिल्ली
6.	सुबोध कुमार	25.08.1951	दिल्ली
7.	भागमल जैन	04.03.1952	दिल्ली
8.	योगी राज	04.08.1952	दिल्ली
9.	डी. पी. सिंह	21.04.1952	दिल्ली
10.	के. डी. त्रेहन	05.01.1951	दिल्ली

1	2	3	4
	सर्वश्री		
11.	जे. जी. अरोड़ा	13.03.1950	दिल्ली
12.	जे. बी. धानिया	05.03.1955	दिल्ली
13.	प्रमोद सिंह	16.07.1950	दिल्ली
14.	धन राज शाह	19.12.1950	दिल्ली
15.	जे. सी. सतीजा	26.05.1951	दिल्ली
16.	प्रदीप बैजल	08.06.1951	दिल्ली
17.	रमेश चन्द्र	17.04.1951	दिल्ली
18.	जे. पी. सिंह	05.09.1952	दिल्ली
19.	बृज मोहन	06.04.1950	दिल्ली
20.	नील कमल	05.11.1951	दिल्ली
21.	अशोक कुमार गुप्ता	21.01.1951	दिल्ली
22.	अशोक कुमार	10.09.1950	दिल्ली
23.	पी. एस. पोखरियाल	06.11.1950	दिल्ली
24.	डी. के. गुप्ता	14.05.1951	दिल्ली
25.	अमर सिंह	10.01.1951	दिल्ली
26.	आर. एस. मेहरा	02.09.1953	दिल्ली
27.	राजेन्द्र कुमार	28.07.1958	दिल्ली
28.	सुश्री कमलेश हड़ा	12.05.1960	दिल्ली
29.	वि. के. अवस्थी	10.07.1956	दिल्ली
30.	बनवारी लाल	02.07.1961	दिल्ली

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2010

सं. I-11014/1/2009-आई.पी.एस.-IV--भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार सरकार और गृह मंत्रालय के यू.टी. प्रभाग की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री सेजु पी. कुरुविल्ला आई.पी.एस. (बिहार : 2007) का विवाह सुश्री मेघना यादव, आई.पी.एस. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2007) के साथ होने के आधार पर उन्हें बिहार से ए.जी.एम.यू.टी. के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में एतद्वारा स्थानांतरित करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. I-18011/20/2009-आई.पी.एस.-IV--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, राष्ट्रपति, सुश्री पारुल कुश जैन, आई.पी.एस. (पश्चिम बंगाल : 2004) को दिनांक 27.12.2006 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस-IV)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. ए-32014/7/2008-प्रशा. I(क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS) के श्री आर. एन. शर्मा (वरीयता सं. 10), जो कि योजना आयोग में नियमित निजी सचिव हैं, को उनके नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS) के चयन ग्रेड 2005 के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पी.बी.-3 (रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड पे रुपए 6,600/-) शामिल किए जाने के अनुसरण में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर गृह मंत्रालय (मुख्य) में दिनांक 01.04.2010 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 अप्रैल 2010

सं. 14031/1/2007-यू.टी.एस.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य-क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1992-बैच के अधिकारी, श्री आर. योमचा 31 मार्च, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. 14031/1/2007-यू.टी.एस.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य-क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1993 के बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, श्री महाबीर सिंह, 31 मार्च, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. 14031/1/2007-यू.टी.एस.--अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 मार्च, 2010 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त हो गए हैं :--

1. श्री दीप चंद (ए जी एम यू : 79)
2. श्री उज्जवलेश्वर मिश्र (ए जी एम यू : 87)
3. श्री एल. एस. संधू (ए जी एम यू : 89)

बलदेव राज, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110067, दिनांक 10 मार्च 2010

सं. 13011/3/2008-प्रशि.-I--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सचिव श्री दीपक कुमार विष्ट, अनुभाग अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आई. एस. टी.एम.) नई दिल्ली में सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंध) के रूप में दिनांक 18.01.2010 (अपराह्न) से पाँच वर्ष की अवधि हेतु या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

अनीता एलेक्जैंडर, अवर सचिव

सं. 13016/06/2007-प्रशिक्षण-I--सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली में सहायक लेखा अधिकारी, श्री के. के. पन्त को दिनांक 01.01.2010 (पूर्वाह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में सहायक निदेशक (लेखा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनीता एलेक्जैंडर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. 14015/24/2009-अ.भा.से.-(I)-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चयन सूची वर्ष 2009 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत 09.12.2009 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अधीन 22.03.2010 को अनुमोदित की गई पश्चिम बंगाल संवर्ग के गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची जिसमें श्री आनंदमोहन चक्रवर्ती (जन्म-तिथि : 02.07.1956) का नाम शामिल है, अधिसूचित करते हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. 14015/08/2009-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष, 2007, 2008 और 2009 की चयन सूचियों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से परामर्श करके उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के

अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर हिमाचल प्रदेश की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 (1) के तहत उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के हिमाचल प्रदेश संवर्ग में आबंटित करते हैं :-

चयन सूची-2007

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1	2
	(सर्वश्री)
1.	जगदीश चंद चौहान
2.	श्रीमती मधु बाला शर्मा
3.	रत्न सिंह

चयन सूची-2008

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
	(सर्वश्री)
1.	डॉ. आर. एन. बत्ता
2.	श्रीमती पूर्णिमा चौहान
3.	के. आर. भारती
4.	संदीप भटनागर
5.	दिनेश मल्होत्रा

चयन सूची-2009

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
	(सर्वश्री)
1.	एस. सी. नेगी (एसटी)
2.	आर. के. शंकर (ओबीसी)

2. उपर्युक्त चयन सूचियों में शामिल उपर्युक्त अधिकारियों को नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालयी मामलों के निर्णय के अध्वधीन होगी :-

- श्री एन. एस. चौधरी बनाम आर. एस. गुप्ता और अन्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या-66-68/2008।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय बैंगलुरु के समक्ष कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा दायर रिट याचिका संख्या-1803-1806/2010 (एस. कैट) एण्ड बैच।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. 23012/01/2010-अ.भा.से.-III--सिविल सेवा परीक्षा, 2003 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त श्री राकेश रामनाथ यादव, भा.प्र.से. (गुजरात : 2004), जो गुजरात राज्य संवर्ग के हैं, को अपना नाम "राकेश रामनाथ यादव" से बदल कर "राकेश शंकर" करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार, सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए उन्हें "श्री राकेश शंकर" के नाम से जाना जाएगा।

शौकत अली, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2009

सं. क्यू/जी ए/576/2/2008--भारत सरकार ने निम्नलिखित मिशन खोला है :-

मिशन का नाम	खोलने की तारीख/मास/वर्ष
भारतीय दूतावास, नियामे (निगर)	01 मई, 2009

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध है कि उपर्युक्त मिशन/केन्द्र के साथ पत्राचार के लिए "द्वारा डिप्लोमेटिक बैग अनुभाग, विदेश मंत्रालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली" को संबोधित करें।

आलोक रंजन झा, अवर सचिव

दिनांक 12 मार्च 2010

सं. क्यू/जी ए/551/2ए/2006--सरकार ने निम्नलिखित पोस्ट बंद कर दी है :-

पोस्ट का नाम	बंद करने की तारीख/मास/वर्ष
भारत का कांसुलावास, सांगखला (थाईलैंड)	12 मार्च, 2010

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध है कि वे अपने रिकार्ड्स को तदनुसार अद्यतन कर लें।

आलोक रंजन झा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2010

सं. 06/पीबी-1/2010--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग IV तथा भारतीय विदेश सेवा (ख) के साइफर संवर्ग के संवर्ग II के निम्नलिखित अधिकारियों को मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/01/2009 दिनांक 12 जून, 2009 के अनुसार उनके नामों के आगे दर्शायी गई तारीख से, भारतीय विदेश सेवा (ख) के

सामान्य संवर्ग के एकीकृत संवर्ग II व III में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
(श्री/सुश्री/श्रीमती)			
1.	गजराज सिंह भाटी	01.02.1967	19.02.2010
2.	दीदार सिंह	04.10.1951	22.02.2010
3.	शम्भू अमिताभ	25.11.1964	19.02.2010
4.	आर. एस. बिष्ट	21.05.1953	19.02.2010
5.	जी. सी. ताल्लुकदार	07.11.1957	19.02.2010
6.	विमला कुमारी	24.03.1958	19.02.2010
7.	वेद प्रकाश	11.06.1954	03.03.2010
8.	के. जे. टेटे	05.02.1960	19.02.2010

2. उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारियों ने उनके नामों के आगे दर्शायी गई तारीखों से अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी
(पी बी I व III)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2010

सं. ए-19011/4/2008-पीए--ग्रेड-1 (अवर सचिव) की नियुक्ति के लिए वर्ष 2004-2008 की चयन सूचियों से सम्बन्धित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 जनवरी, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2009-सीएस-I (यू) में निहित आदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के लिए 2005 और 2007 की चयन-सूची में निम्न अधिकारियों को शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति निम्न अधिकारियों को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में 07.10.2010 से आगामी आदेशों तक नियुक्त करती हैं :--

नाम	चयन सूची	चयन सूची संख्या
श्री नितिन कुमार	2005	4801-ए
श्री जी. सी. राउत	2005	5330
श्री के. वी. उन्निकृष्णन	2007	5823

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में उनकी वरीयता उनसे संबंधित चयन सूची में उनके क्रमांक के अनुसार होगी, चाहे चयन ग्रेड में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीख कोई भी हो।

प्रदीप कुमार सुरेका, अवर सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. ए-11019/01/2009-पीए--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.02.2010 के कार्यालय आदेश सं. 8/3/2009-ई ओ (एस एम)-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री करन ए. सिंह भा.प्र.से. (पंजाब : 84) को 15.04.2010 के पूर्वाह्न से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में उत्प्रवास महासंरक्षी (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रदीप कुमार सुरेका, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2010

भारतीय सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापनायें

सं. 13/2010(फा.सं.ए-39012/05/2010-प्रशा.II)--राष्ट्रपति, श्री सी. माणिकम, सहायक आयुक्त, सतकर्ता निदेशालय, नई दिल्ली, के दिनांक 18.03.2010 (अपराह्न) से दिये गये त्याग पत्र को स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

सं. 14/2010(फा.सं.ए-38012/03/2009-प्रशा.II)--राष्ट्रपति, सी. सी. एस.(पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 48-क के अंतर्गत, श्री पी. एस. बी. रेड्डी, उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मंगलोर की दिनांक 14.04.2010 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. 15/2010(फा.सं.ए-38012/05/2009-प्रशा.II)--राष्ट्रपति, श्री जी. विधाधर रेड्डी, उपायुक्त, सीमा-शुल्क, जे. एन. सी. एच. न्हावा शेवा पोर्ट, मुम्बई की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48क के अंतर्गत दिनांक 15.04.2010 (पूर्वाह्न) के प्रभाव से स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. 16/2010(फा.सं.ए-38012/06/2009-प्रशा.II)--राष्ट्रपति, श्री सी. रविचन्द्रन, सीमा-शुल्क, उपायुक्त, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, चेन्नई को सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 27.04.2010 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

सं. 17/2010 (फा.सं.ए.-39012/03/2010-प्रशा.11)--राष्ट्रपति, श्री प्रदीप पी., सहायक सीमा-शुल्क आयुक्त (आयात), जे. एन. सी. एच. न्हावा सेवा का भारतीय राजस्व सेवा (सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) से दिनांक 10.12.2009 (अपराहन) से तकनीकी त्याग पत्र स्वीकार करते हैं जिससे वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यभार ग्रहण कर सकें।

एस. के. देव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. 3/2010 (फा.सं. 32014/1/2009-प्रशा.1क)--व्यय विभाग (सी ए एस) के दिनांक 26 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32022/01/2010-सी ए एस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 2005, 2006 और 2007 की चयन सूची के समक्ष तत्काल प्रभाव से नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :-

चयन सूची वर्ष 2005

क्र.	नाम
सं.	

1. श्री एस. के. गुप्ता, निजी सचिव
2. सुश्री कृष्णा कुमारी, निजी सचिव

चयन सूची वर्ष 2006

श्री के. एन. शर्मा, निजी सचिव

चयन सूची वर्ष 2007

श्री आर. के. वर्मा, निजी सचिव

आनंद उपाध्याय, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2010

सं. ए-20011/239/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री गुलाब सिंह आर्य, निजी सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, को समय-समय पर यथा-संशोधित केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-क के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2010 (अपराहन) से स्वेच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

दिनांक 9 अप्रैल 2010

सं. ए-19011/296/2010-स्था.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा की मुख्य निजी सचिव की वर्ष 2005 की चयन सूची में शामिल होने पर कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा संवर्ग के नियमित निजी सचिव श्री नीरज सागर को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में 22 मार्च, 2010 के अपराहन से मुख्य निजी सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2010

सं. ए-12026/6/2010-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा (सीएसएसएस) के अधिकारी श्री अशोक कुमार को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 15,600--39,100/- रु. के संशोधित वेतन बैंड अर्थात् पी.बी.-3 में दिनांक 1 जुलाई 2005 से वर्ष 2005 की चयन सूची के अनुसार ग्रेड-1 (पीपीएस) के तौर पर नियमित नियुक्ति के लिए नियुक्त करते हैं।

मिताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. ए-22015/2/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्रीमती सरिता कुंवर, सहायक निदेशक (रा.भा.) को 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड पी.बी.-3 में 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 1 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक, व्यय विभाग में नियुक्त करते हैं।

मिताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2010

सं. क-19011/3/2010-स्था.-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री एस. के. जैन, के.स.से. को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में 37,400--67,000/- रुपए जमा 8,700/- रुपए ग्रेड वेतन के वेतन बैंड में दिनांक 16 फरवरी, 2010 पूर्वाह्न से और अगला आदेश होने तक, निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

दिनांक 23 फरवरी 2010

सं. 6/2010 (ए-32012/4/2009-स्था.-I)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 2010 के का.ज्ञा. सं. 5/8/2009-सी. एस.-I (यू) में निहित आदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I की वर्ष 2005 की चयन सूची (एसएल) में उनका

नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा श्री विजय कुमार (सीएसएल-5285), सीएसएस अधिकारी, अवर सचिव (तदर्थ) (वर्तमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग में वरिष्ठ विश्लेषक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर) को दिनांक 1 जुलाई, 2005 से अगला आदेश होने तक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में नियमित आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I में (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. सीएसएस ग्रेड-I में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता संबंधित चयन सूची में दिए गए क्रमांकों के अनुसार होगी और इसके लिए ग्रेड-I में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीख पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. उपर्युक्त चयन सूची से अधिकारी की अवर सचिव के पद पर नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका सं. 13352/2005, सीएटी, नई दिल्ली में श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत सरकार के ओए सं. 3294/2009 और श्री पी. एस. भादुड़ी बनाम भारत सरकार तथा अन्य के ओए सं. 2674/2009 के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

सं. /2010 (ए-32012/4/2009-स्था.-I)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 2010 के का.ज्ञा. सं. 5/8/2009-सी. एस.-I (यू) में निहित आदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I की वर्ष 2006 की चयन सूची (एसएल) में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा श्री आर. एस. चटर्जी (सीएसएल सं. 5417), सीएसएस अधिकारी, अवर सचिव (तदर्थ) (वर्तमान में प्रधानमंत्री के कार्यालय में अवर सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर) को दिनांक 1 जुलाई, 2006 से अगला आदेश होने तक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में नियमित आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I में (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. सीएसएस ग्रेड-I में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता संबंधित चयन सूची में दिए गए क्रमांकों के अनुसार होगी और इसके लिए ग्रेड-I में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीख पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. उपर्युक्त चयन सूची से अधिकारी की अवर सचिव के पद पर नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका सं. 13352/2005, सीएटी, नई दिल्ली में श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत सरकार के ओए सं. 3294/2009 और श्री पी. एस. भादुड़ी बनाम भारत सरकार तथा अन्य के ओए सं. 2674/2009 के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

दिनांक 2 मार्च 2010

सं. ए-19011/5/2010-ई-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री सनोज कुमार झा, आई ए एस (एस के : 97) को 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड और 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति उन्हें अनुमत्य केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति सेवाकाल की शेष अवधि

अर्थात् 3 वर्ष 9 माह और 28 दिन तक अर्थात् 25 दिसम्बर, 2013 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. ए-4/3/2010-एसईजेड--राष्ट्रपति, विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में कार्यरत श्री बी. एन. शेवाले, अपर महानिदेशक (विदेश व्यापार) को तारीख 06.04.2010 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, सूरत स्पेशल इकोनोमिक जोन, गुजरात में रुपए 37,400--67,000/- (पीबी-4) ग्रेड पे 10,000/- रुपए के वेतनमान में विकास आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2010

सं. ए-19011/01/2010-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 26/10/2009-ईओ (एसएमआई) के अनुसरण में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में श्री पार्थ सारथी दास, आईए एण्ड एस (1994) को 7 अप्रैल पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी घटना पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

सं. ए-19011/1/2007-स्था.--पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक, श्री संजय गुप्ता भा.रा.से. (आईटी : 94) को अपनी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को पूरा करने पर, दिनांक 12.04.2010 पूर्वाह्न से मंत्रालय में उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और उनकी सेवाओं को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सौंपा जाता है।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. ए-19011/4/2010-मा. सं.-II--राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 15.03.2010 के अपने कार्यालय आदेश सं. 5/4/2010-रा. भा. (सेवा) के अंतर्गत नामांकन किए जाने के आधार पर, राष्ट्रपति, श्रीमती विनीत कुलश्रेष्ठ, उपनिदेशक (राजभाषा), संघ लोक सेवा आयोग को उर्वरक विभाग में दिनांक 01.04.2010 (पूर्वाह्न) से पे बैंड-3 में 15,600--39,100/- रुपए, ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में उपनिदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करती है।

आर. एन. जुनेजा, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 9 अप्रैल 2010

सं. ए-42013/1/2000-प्रशा.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.01.2010 के का.ज्ञा.सं. 5/8/2009/सीएस-I (यू) के तहत सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों की वर्ष 2004-2008 के लिए चयन सूची में उनके नामों को शामिल करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के निम्नलिखित सीएसएस अधिकारियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियमित आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	सीएसएस सं. और चयन सूची वर्ष
1.	श्री ई. रॉबर्ट सिंह	4686 क-चयन सूची 2005
2.	श्री काशी नाथ	6102-चयन सूची 2005
3.	श्री आर. के. बी. पटेल	4907 क-चयन सूची 2006
4.	श्री एस. के. मोहन्ती	5752-चयन सूची 2007
5.	श्री संजय कुमार सिंह	5848-चयन सूची 2007

उपर्युक्त नियुक्ति, अनुमोदित सेवा के प्रयोजन हेतु तदनुसूची चयन वर्ष के 01 जुलाई से प्रभावी हुई मानी जाएगी।

उपर्युक्त नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी सं 13352/2005, कैट, नई दिल्ली में श्री पी. आर. शर्मा बनाम यूओआई शीर्षक ओ ए सं. 3294/2009, और श्री पी. एस. भण्डारी बनाम यूओआई और अन्य शीर्षक ओ ए सं. 2674/2009 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

एस. के. नन्दा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(जैव प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 जनवरी 2010

सं. ए-19011/22/2010-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/6/2007-सीएस-II दिनांक 21.12.2009 तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या ए-12025/01/08-प्रशासन 1(ए) दिनांक 13 जनवरी, 2010 और संख्या ए-32011/02/03-प्रशासन 1(ए) दिनांक 20.01.2010, के अनुसरण में, श्री राम किशन, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव को दिनांक 12.01.2010 के पूर्वाह्न से जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्टेथ में ले लिया गया है।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 फरवरी 2010

सं. 22012/41/2009-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति,

उत्तर प्रदेश के राज्य वन सेवा के श्री अशोक दीक्षित को 1995-96 की चयन सूचियों में उनका नाम शामिल होने के आधार पर विद्यमान रिक्तियों पर भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम के उप-नियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा का उत्तर प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं।

विवेक सक्सेना, निदेशक

दिनांक 12 फरवरी 2010

सं. 17013/01/2009-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में सन्निहित उपबंधों का प्रयोग करके, संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 04.12.2009 को आयोजित चयन समिति की बैठक में तैयार की गई वर्ष 2009 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य वन सेवा में भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति के लिए चयन सूची अनुमोदित की है जिसमें भारतीय वन सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति कोटा रिक्ति को भरने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	डॉ. पी. सुब्बा राघवया	25.01.1961
2.	श्री सी. पी. विनोद कुमार	21.10.1963

विवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 अप्रैल 2010

सं. 6-3/2008-एफई (.)--राष्ट्रपति निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून में सहायक निदेशक के पद पर 8,000--13,500/- रुपए (वर्ग 'क' प्री-रिवाइज्ड) के वेतनमान में 23.11.2009 से सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
	श्री/श्रीमती
1.	धारा सिंह (अ.जा.)
2.	एस. एम. रवी (अ.जा.)
3.	आर. के. चतुर्वेदी

मालती रावत, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2010

सं. ए. 12025/02/2008-सीएसएस-VI--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. गुरसिमरनजीत सिंह चटवाल को

25 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में पीबी-3 {15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन [5,400/- रु.]} के वेतनमान में दंत शल्य चिकित्सक के रूप में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. ए. 12025/35/2007-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. विठल कुमार मल्लेशी बेटिगिरी को 11 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में कार्डियो-थोरेसिक एवं वास्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) की विशिष्टता में सहायक आचार्य के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2010

सं. ए-38013/07/2009-प्रशासन-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्याम लाल शर्मा, अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 28.02.2010 (अपराह) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालड़ा
उप निदेशक प्रशासन (आर.के.के.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. 6-12/2008-आईएनएम--राष्ट्रपति, नियमित कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. एम. के. पालीवाल की पीबी-3 (15,600--39,100/- रु. + ग्रेड पे 5,400/- रु.), सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (गैर मंत्रालयी) में राष्ट्रीय जैव खेती केन्द्र गाजियाबाद में सहायक निदेशक के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 29.1.2010 से 29.7.2010 तक छह माह की अवधि हेतु अथवा नियमित व्यवस्था होने, अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक तदर्थ आधार पर बढ़ाते हैं।

टी. जे. एस. चावला, अवर सचिव

सं. 6-1/2003-आईएनएम--राष्ट्रपति, नियमित कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री आर. पी. सिंह की पीबी-3 (15,600--39,100/- रु. + ग्रेड पे 5,400/- रु.), सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (गैर मंत्रालयी) में राष्ट्रीय जैव खेती केन्द्र गाजियाबाद में सहायक निदेशक के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 03.02.2010 से 03.08.2010 तक छह माह की अवधि हेतु अथवा नियमित व्यवस्था होने, अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक तदर्थ आधार पर बढ़ाते हैं।

टी. जे. एस. चावला, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. 2-5/2005-प्रशासन (पार्ट-I)--राष्ट्रपति, सहर्ष वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के श्री उमाकांत खुबालकर, सहायक निदेशक को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में उप निदेशक (भाषा) के पद पर पूर्व वेतनमान रु. 10,000--15,200/- में प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 01.04.2010 से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करने के आदेश देते हैं, जो अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

के. पी. जे. जराल्ड, अवर सचिव

सं. 2-5/2005-प्रशासन (पार्ट-I)--राष्ट्रपति, सहर्ष के.आर.बी. गर्ल्स कालेज, गुवाहाटी के डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में उप निदेशक (भाषा) के पद पर पूर्व वेतनमान रु. 10,000--15,200/- में प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 30.03.2010 से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करने के आदेश देते हैं, जो अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

के. पी. जे. जराल्ड, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ए-32011/1/2009-स्था.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/16/2007-सीएस-I दिनांक 25 अगस्त 2009 के अनुपालन में वर्ष 2003 की चयन सूची, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के नियम 12(2) के तहत तैयार की गई थी, और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I और चयन ग्रेड में पदोन्नति) विनियम, 1964 के अनुपालन में राष्ट्रपति श्री ओम प्रकाश (सीएसएल सं. 4273) को 1-7-2003 से नियमित अवर सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त अधिकारी की नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 13352/2005 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी। उक्त अधिकारी की उपर्युक्त नियुक्ति अनुमोदित सेवा के उद्देश्य से और सांकेतिक आधार पर अवर सचिव के रूप में उनके वेतन निर्धारण के लिए 1-7-2003 से प्रभावी मानी जाएगी। तथापि, वास्तविक लाभ उस तारीख से उपलब्ध होंगे जब अधिकारी को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव ग्रेड में नियुक्त किया गया था।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. ए-32011/9/2006-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्रीमती अनिता कौल, आई.ए.एस. (कनॉटक : 79) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) में संयुक्त सचिव की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 31-3-2010 से आगे तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाती है।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. 36-18/2008-एई-6/एई-1--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन समिति के बैठक की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति श्री ए. एच. गणेश, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सीएसएस कॉडर के सहायक को 1-4-2010 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली में 6,500-200-10,500/- रुपए (पूर्व-संशोधित) वेतनमान में कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के. सी. मीना, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 3-3/2009-प्रशा.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21-12-2009 के पत्र सं. 4/6/2008-ई.ओ.(एम.एम.-1) के आधार पर श्री एल. साईकिया, (आई.आर.टी.एस. : 94) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 18-12-2013 तक के लिए 15-03-2010 (पूर्वाह) से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं। इनका सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम और नॉन सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के पदों पर कुल कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 7 वर्ष की अधिकतम सीमा या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो के अध्यक्षीन होगा।

ए. पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. 4-54/1993-प्रशा.--राष्ट्रपति, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 15 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/4/2010-रा.भा.(सेवा) के अनुसरण में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सहायक निदेशक (रा.भा.), श्री जे. एल. भल्ला को आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप निदेशक (रा.भा.) के पद पर अपना नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए 31 मार्च, 2010 के अपराह्न से कार्यमुक्त करते हैं।

के. के. शर्मा, उप सचिव (प्रशा.)

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 मार्च 2010

सं. एफ-6-29/2009-एम-1--विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन किए जाने के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री शिव दत्त बक्शी, सीनियर फोटोग्राफर, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली को 9,300-34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड पे 4,200/- रु. में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में फोटोग्राफिक ऑफिसर, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय, के पद पर 12-01-2009 (पूर्वाह) से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

एन. पी. जोशी, अवर सचिव

सं. एफ-6-30/2009-एम-1--विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन किए जाने के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा डॉ. समीउद्दीन, सहायक संग्रहाध्यक्ष, डॉ. जॉकिर हुसैन स्मारक संग्रहालय, ओखला, नई दिल्ली को 9,300-34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड पे 4,200/- रु. में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में शोध अधिकारी, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय, के पद पर 16-02-2009 (पूर्वाह) से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

एन. पी. जोशी, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. ए-32013/1/2009-प्रशा.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2009-सीएस-1 दिनांक 7-12-2010 के द्वारा ग्रेड-1 में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों की वर्ष 2005, 2007 तथा 2008 की चयन सूची में शामिल करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	सीएसएल सं.	नाम	चयन सूची का वर्ष	नियमित नियुक्ति की तारीख
1.	4710-क	श्री ए. के. सरन	2005	01-07-2005
2.	5781	श्री राजीव सभरवाल	2007	01-07-2007
3.	5815	श्री शिव प्रताप सिंह तोमर	2007	01-07-2007
4.	5968	श्री शंकर लाल	2008	01-07-2008
5.	6052	श्री एच. एम. कुंडलिया	2008	01-07-2008
6.	6268	श्री गुरुचरन सिंह, अनुसूचित जाति	2006	01-07-2006

2. अवर सचिव के पद पर इन अधिकारियों का वेतन प्रकल्पित रूप से नियमित आधार पर पदोन्नति की तारीख से निर्धारित किया जाएगा, किन्तु वेतन और भुगतान का बकाया अवर सचिव के रूप में वास्तविक नियुक्ति की तारीख से स्वीकार्य होगा। इसके अलावा, ये अधिकारी एफआर-22 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने वेतन के निर्धारण के लिए लाभ प्राप्त करने के विकल्प के भी हकदार होंगे। तथापि ऐसे अधिकारी जो अपनी चयन सूची वर्ष की एक जुलाई से पहले तदर्थ अवर सचिव के रूप में पदोन्नति प्राप्त कर चुके थे तथा स्लिप्ट विकल्प का लाभ ले चुके थे, वे इस विकल्प का पुनः लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।

3. अवर सचिव के पद पर ऊपर उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्ति उनके नामों के आगे दर्शाई गई चयन सूची के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी नं. 13352/2005; कैट, नई दिल्ली में श्री पी. आर. शर्मा बनाम यूओआई नामक ओए सं. 3294/2009 तथा श्री पी. एस. भंडारी बनाम यूओआई तथा अन्य नामक ओए सं. 2674/2009 के आधार पर की जाएगी।

मुकुल चटर्जी, निदेशक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2010

सं. ए-19011/08/2009-स्था-II--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की संयुक्त निदेशक (रा. भा.) सुश्री आशा रानी नय्यर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 मार्च, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

शुद्धि पत्र

सं. ए-12025/1/95-स्था-II--इस मंत्रालय के दिनांक 28.04.2009 की समसंख्यक अधिसूचना में, "वेतनमान 9,300--34,800/- रुपए के साथ पे बैंड-2" वाक्यांश के लिए "वेतनमान 15,600--39,100/- रु. के साथ पे बैंड-3" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की दिनांक 20.11.2009 की समसंख्यक अधिसूचना में, वाक्यांश "पे बैंड-2 (9,300--34,800/- रु.) के लिए "पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाता है और वाक्यांश "सामान्य केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित" के लिए "सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाता है।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. ए-53011/1/2009-स्था.--राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय में निजी सहायक श्री शेख मोहम्मद मस्तान को वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए) और ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए में दिनांक 37.07.2009 (अपराह्न) से अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के प्रथम निजी सहायक के रूप में नियुक्त करती हैं

2. श्री शेख मोहम्मद मस्तान की नियुक्ति सह-योजन आधार पर है, जो मंत्री जी के कार्यकाल अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए है।

भोपाल दास, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. 3(3)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने श्रीमती सीतालक्ष्मी श्रीधर उप निदेशक (स्वस्थाने/वैयक्तिक) को पदोन्नत होने पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 07.04.2010 के पूर्वाह्न से 15,600--39,100/- (पीबी-3) ग्रेड 6,600/- रुपए प्रतिमाह के वेतनमान में नियमित आधर पर उप निदेशक नियुक्त किया है।

2. वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2010

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/08--रेल विकास निगम लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री बी. एस. कलसी, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी सेवा ने 10.03.2010 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/07--दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री प्रशांत राव, सेलेक्शन ग्रेड/भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी सेवा ने 24.12.2009 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/16--रेल विकास निगम लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री अरूण कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा ने 29.01.2010 (पूर्वाह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. ई(जी.पी.)2006/1/36--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल भंडार विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारी की, उल्लिखित रेलवे पर 01.07.2002 के भारतीय रेल भंडार सेवा (आई.आर.एस. एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

2001-02 के लिए पैनल

अधिकारी का नाम

पूर्वोत्तर रेलवे

श्री जयन्ती प्रसाद (अ.जा.)

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति श्री एस. आर. किस्कु तथा अन्य के द्वारा कैंट/इलाहाबाद में दायर की गई याचिका सं. 1035/05 के परिणाम के अधधीन की जाती है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी.पी.)2006/1/36--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल भंडार विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारी की, उल्लिखित रेलवे पर

15.10.2003 से भारतीय रेल भंडार सेवा (आई.आर.एस. एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

2002-03 के लिए पैनाल

अधिकारी का नाम

पूर्वोत्तर रेलवे

1. श्री बी. एस. जैपुरियार (पूर्वमध्य रेलवे में कार्यरत)

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति श्री एस. आर. किस्कु तथा अन्य के द्वारा कैंट/इलाहाबाद में दायर की गई याचिका सं. 1035/05 के परिणाम के अधधीन की जाती है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.03.2010 के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| (1) श्री एन. डी. शर्मा | उप निदेशक (राजभाषा) |
| (2) श्रीमती प्रेमलता चोपड़ा | उप निदेशक (राजभाषा) |
| (3) श्रीमती संतोष महाजन | अनुभाग अधिकारी |
| (4) श्री मूल चंद | अनुभाग अधिकारी |
| (5) श्री रणबीर सिंह | अनुभाग अधिकारी |

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री प्रवीण कुमार, सदस्य यांत्रिक, रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.03.2010 के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री जयपाल सिंह, निजी सचिव, रेलवे बोर्ड, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 28.02.2010 के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. ई(ओ)-III/2010/आरएन/17--इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री एस. के. सिन्हा, वरिष्ठ प्रशासनिक

ग्रेड/भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा ने 10.03.2010 (पूर्वाह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

शिवाजी रक्षित, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत-परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ए-32011/1/08-एम ए--राष्ट्रपति, श्री योगेश बग्गा, अभियंता और पोत सर्वेक्षक को दिनांक 12.03.2010 (अपराह्न) से तथा अगले आदेशों तक समुद्री वाणिज्य विभाग, कांडला में 37,400--67,000/-रु. + ग्रेड पे 8,700/- रु. के वेतनमान में उप मुख्य सर्वेक्षक के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. आर. सेनगुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ए-38013/2/10-स्था--पोत परिवहन मंत्रालय से श्री हरि निवास (एस एल/2003), अनुभाग अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर शासकीय सेवा से दिनांक 31.3.2010 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसंबर 2008

सं. 46/3/2008-आर एंड आर--राष्ट्रपति, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 113(2) के संदर्भ में न्यायमूर्ति एम. करपागा विनयागम को 14 नवंबर, 2008 के पूर्वाह्न से 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, विद्युत अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

मलय श्रीवास्तव, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2010

सं. 25/7/2009-आर एंड आर--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89(1) के साथ पठित धारा 76(6) के संदर्भ में, राष्ट्रपति, श्री एम. दिना दयालन को 04 मार्च, 2010 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करते हैं।

प्रणय कुमार, निदेशक

सं. 46/1/2009-आर एंड आर--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 113(3) के संदर्भ में, राष्ट्रपति, श्री राकेश नाथ को 03 मार्च, 2010 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, विद्युत अपील अधिकरण का तकनीकी सदस्य नियुक्त करते हैं।

प्रणय कुमार, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. 05/10. (फा. सं. 4/12/2009-प्रशा.-II)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/1/2010-सी. एस.-I (एस) में शामिल किए गए प्रावधानों के अनुसरण में, सीएसएस के विद्युत मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायक, जो कि वर्तमान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को वर्ष 2006 की चयन सूची के वरिष्ठता कोटे से, नियमित आधार पर सीएसएस के विद्युत मंत्रालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है :--

नाम	वर्तमान तैनाती
श्री जे. पी. बहोतिया	विद्युत मंत्रालय

मधुकर सूद, अवर सचिव

दिनांक 9 अप्रैल 2010

सं. 7/2010. [फा. सं. 1/5/2009 (पीटी)-प्रशा.-II]--राष्ट्रपति, श्री मलय श्रीवास्तव, आई.ए.एस. (मध्य प्रदेश : 90), निदेशक, विद्युत मंत्रालय को 9 फरवरी, 2010 के पूर्वाह्न से, माननीय विद्युत राज्य मंत्री (श्री भरत सिंह सोलंकी) का निजी सचिव नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति संयुक्त सचिव के रूप में उनके सूचीबद्ध होने के अनुसरण में संयुक्त

सचिव के रूप में उनकी तैनाती होने तक अथवा मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्यरत न रहने पर अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी। केन्द्र में इनकी प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल की गणना 24.12.2007 से की जाती है।

मधुकर सूद, अवर सचिव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. ए-22011/2/2005-प्रशा.-I--राष्ट्रपति श्री ए. सी. पाण्डेय, आईएएस (यूपी : 84) को 5 अप्रैल, 2010 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में बतौर संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. ए-19012/1/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री सत्यपाल को 19 मार्च, 2010 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 231 the 9th April 2010

No. 11/1(1)/2010-I.—The President is pleased to appoint Shri N. Pattabi Raman as Under Secretary in the Department of Space, Bangalore in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.04.2010 and until further orders.

M. NAVAMANY, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 31st March 2010

No. A-12025/03/2010-Admn. II.—The President is pleased to appoint Ms. Bindeshwary Rai to the post of Senior Research Officer, on co-terminus basis, in the personal staff of the Adviser to Prime Minister on Public Information Infrastructure & Innovations in PB-3 [Rs. 15,600—39,100] plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 08.03.2010 F.N. till Adviser to Prime Minister on Public Information Infrastructure & Innovations desires or demits office or until further orders, whichever is earlier.

N. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

New Delhi, the 8th April 2010

No. A-37012/03/2008-VSP (A).—The President is pleased to appoint Shri A. K. Varshney, Editor in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Chief Editor in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the said Prakashan of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on ad-hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 5th April, 2010 to 4th July, 2010 or until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Shri A. K. Varshney, any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Chief Editor nor the ad-hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

KULDEEP KUMAR, Dy. Secy.

No. A-37012/03/2008-VSP (A).—The President is pleased to appoint Shri Jugal Kishore, Assistant Editor in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Editor in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the said Prakashan of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on ad-hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 5th April, 2010 to 4th July, 2010 or until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Shri Jugal Kishore, any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Editor nor the ad-hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

KULDEEP KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001 the 12th March 2010

No. 14016/10/2009-UTS-II.—Under Clause (c) of sub-rule (2) of rule 7, read with sub-rule (1) of rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Civil Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Feeder Grade officers from the Government of NCT of Delhi to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS) in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- (Grade Pay Rs. 4,800/-) on a probation period of two years with immediate effect:—

Sl No.	Name of the Officer	Date of Birth	Name of UT where employed
1	2	3	4
	(S/Shri)		
1.	O. P Arora	08.08.1950	Delhi
2.	Surinder Kumar	12.07.1954	Delhi
3.	Dharam Vir	30.12.1950	Delhi
4.	Sham Chand	20.10.1954	Delhi
5.	Madan Lal	08.06.1951	Delhi
6.	Subodh Kumar	25.08.1951	Delhi
7.	Bhagmal Jain	04.03.1952	Delhi
8.	Yogi Raj	04.08.1952	Delhi
9.	D. P. Singh	21.04.1952	Delhi
10.	K. D. Trehan	05.01.1951	Delhi
11.	J. G. Arora	13.03.1950	Delhi
12.	J. B. Dhania	05.03.1955	Delhi
13.	Pramod Singh	16.07.1950	Delhi
14.	Dhan Raj Shah	19.12.1950	Delhi
15.	J. C. Satija	26.05.1951	Delhi
16.	Pradip Baijal	08.06.1951	Delhi
17.	Ramesh Chander	17.04.1951	Delhi
18.	J. P. Singh	05.09.1952	Delhi
19.	Brij Mohan	06.04.1950	Delhi
20.	Neel Kamal	05.11.1951	Delhi
21.	Ashok Kumar Gupta	21.01.1951	Delhi

1	2	3	4
22.	Ashok Kumar	10.09.1950	Delhi
23.	P. S. Pokhrial	06.11.1950	Delhi
24.	D. K. Gupta	14.05.1951	Delhi
25.	Amar Singh	10.01.1951	Delhi
26.	R. S. Mehra	02.09.1953	Delhi
27.	Rajinder Kumar	28.07.1958	Delhi
28.	Ms. Kamlesh Hatta	12.05.1960	Delhi
29.	V. K. Awasthi	10.07.1956	Delhi
30.	Banbari Lal	02.07.1961	Delhi

J. K. SINGH, Desk Officer.

New Delhi, the 1st April 2010

No. I-11014/01/2009-IPS-IV.—In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Bihar and the UT Division of the Ministry of Home Affairs, the Central Government hereby transfers Shri Seju P. Kuruvilla, IPS (Bihar : 2007) from Bihar to the IPS Cadre of AGMUT on the ground of his marriage with Ms. Meghna Yadav, IPS (AGMUT : 2007).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV).

The 15th April 2010

No. I-18011/20/2009-IPS-IV.—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Ms. Parul Kush Jain, IPS (West Bengal : 2004), in the Indian Police Service with effect from 27.12.2006.

Rajinder Kumar, Section Officer (IPS-IV).

New Delhi, the 15th April 2010

No. A-32014/07/2008-Ad. I(A).—The President is pleased to appoint Shri R. N. Sharma (Seniority No. 10), a regular Private Secretary of Planning Commission, is appointed to the post of Principal Private Secretary in Ministry of Home Affairs (Proper) on regular basis with effect from the forenoon of 1st April, 2010, consequent upon inclusion of his name in the Select List of Private Secretary's Grade (designated as Principal Private Secretary) in the scale of Pay Band : 3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) of CSSS for the year 2005 and nomination to the Ministry of Home Affairs.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-1, the 19th April 2010

No. 14031/1/2007-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri R. Yomcha, an Indian Police Service Officer of 1992 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-

Goa-Mizoram-Union Territories retired from service in the afternoon of 31st March, 2010.

BALDEV RAJ, Under Secy.

No. 14031/1/2007-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri Mahabir Singh, an Indian Police Service Officer of 1993 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories retired from service in the afternoon of 31st March, 2010.

BALDEV RAJ, Under Secy.

No. 14031/1/2007-UTS.—On attaining the age of superannuation, the following Indian Police Service Officers of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories retired from service in the afternoon of 31st March, 2010 :—

1. Shri Deep Chand (AGMU : 79)
2. Shri Ujjwaleshwar Mishra (AGMU : 87)
3. Shri L. S. Sandhu, (AGMU : 89)

BALDEV RAJ, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi-110067, the 6th April 2010

No. 13011/3/2008-Trg. I.—The Secretary, Ministry of Personnel Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training is pleased to appoint Shri Deepak Kumar Bist, Section Officer, Ministry of Defence, New Delhi as Assistant Director (Office Management) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of five years with effect from the 18.01.2010 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

ANITA ALEXANDER, Under Secy.

No. 13016/06/2007-Trg. I.—The Secretary, Ministry of Personnel Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training is pleased to appoint Shri K. K. Pant, Assistant, Accounts Officer in Pay Accounts Office, New Delhi as Assistant Director (Accounts) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of five years with effect from the 01.01.2010 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

ANITA ALEXANDER, Under Secy.

New Delhi, the 8th April 2010

No. 14015/24/2009-AIS (I)-A.—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian

Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service Officers of West Bengal containing the name of Sh. Ananda Mohan Chakrabarty (Date of Birth : 02.07.1956) prepared on 09.12.2009 under Regulations 5 and approved on 22.03.2010 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of West Bengal under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulations 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2009.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 15th April 2010

No. 14015/08/2009-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Himachal Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List years 2007, 2008 and 2009, on probation until further orders and to allocate them to Himachal Pradesh Cadre of IAS, under rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST 2007

S. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	Jagdish Chand Chauhan
2.	Smt. Madhu Bala Sharma
3.	Rattan Singh

SELECT LIST 2008

S. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	Dr. R. N. Batta
2.	Smt. Purnima Chauhan
3.	K. R. Bharti
4.	Sandeep Bhatnagar
5.	Dinesh Malhotra

SELECT LIST 2009

S. No.	Name of the Officer
	(S/Shri)
1.	S. C. Negi (ST)
2.	R. K. Shankar (OBC)

2. The appointment of the above officers in the said Select Lists would be subject to the outcome of the following Court cases :—

- (iii) SLP Nos. 66-68/2008 filed by Sh. N. S. Chaudhary Vs. R. S. Gupta & Others before the Hon'ble Supreme Court; and
- (iv) W.P. No. 1803-1806/2010 (S-CAT) & batch filed by Govt. of India, DOP&T before the Hon'ble High Court of Karnataka at Bangalore.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 13th April 2010

No. 23012/01/2010-AIS-III.—Shri Rakesh Ramnath Yadav, IAS (GJ : 2004) appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2003 and borne on the cadre of Gujarat, has been permitted to change his name from "Rakesh Ramnath Yadav" to "Rakesh Shankar". He will accordingly be recognised as Shri Rakesh Shankar for all official purposes.

SHAUKAT ALI, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 6th August 2009

No. Q/GA/576/2/2008.—The Government of India has opened the following Mission :—

Name of the Mission	Date/Month/Year of Opening
Embassy of India, Niamey (Niger)	01st May 2009

2. All Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and the Administrations of all Union Territories are requested to ensure that the correspondence to the above Mission/Post is addressed "C/o Diplomatic Bag Section, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi".

ALOK RANJAN JHA, Under Secy.

The 12 March 2010

No. Q/GA/551/2A/06—The Government has closed the following post:—

Name of the post	Date/Month/Year of Closure
Consulate of India, Songkhla (Thailand)	12.03.2010

2. All Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and the Administrations of all Union Territories are requested to update their records, accordingly.

ALOK RANJAN JHA, Under Secy.

New Delhi, the 25th March 2010

No. 06/PB-I/2010—The President is pleased to appoint the undermentioned officers belonging to Grade IV of the General Cadre of IFS (B) and Grade II of Cypher Cadre of IFS (B) to officiate in Integrated Grades II & III of General Cadre of IFS (B) with effect from the date shown against their names in terms of Ministry's O.M. No. Q/CAD/584/01/2009 dated 12th June, 2009:—

S.No.	Name of the Officer	Date of Birth	Date of Promotion
	(Sh./Smt.)		
1.	Gaj Raj Singh Bhati	01.02.1967	19.02.2010
2.	Didar Singh	04.10.1951	22.02.2010
3.	Shambhu Amitabh	25.11.1964	19.02.2010
4.	R.S. Bisht	21.05.1953	19.02.2010
5.	G. C. Talukdar	07.11.1957	19.02.2010
6.	Ms. Vimla Kumari	24.03.1958	19.02.2010
7.	Ved Prakash	11.06.1954	03.03.2010
8.	K. J. Tete	05.02.1960	19.02.2010

2. The above mentioned officers have assumed charge of the post of Section Officer with effect from the dates indicated against their names.

M.B. VERMA, Admn. Officer (PB-I&III)

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 9th April 2010

No. A. 19011/4/2008-PA.—Consequent upon their inclusion in the Select List (SL) of 2005 and 2007 for Selection Grade of Central Secretariat Services (CSS) as per orders contained in DOP&T OM No. 5/8/2009-CS.I(U) dated 07th January, 2010 relating to the SLs for the year 2004-2008, for appointment to Grade-I (Under Secretary), the President is pleased to appoint the following officers as Grade-I (Under Secretary) in the Ministry of Overseas Indian Affairs on regular basis w.e.f. 07.01.2010 and until further orders:—

Name of the Officers	Select List	CSL No.
Shri Nitin Kumar	2005	4801-A
Shri G.C. Rout	2005	5330
Shri K.V. Unnikrishnan	2007	5823

2. Their inter-se seniority in Selection Grade of CSS will follow the serial order given in their respective SLs, irrespective of his actual date of appointment to the Selection Grade.

PRADEEP KUMAR SUREKA, Under Secy.

The 15th April 2010

No. A. 11019/01/2009-PA.—In pursuance of Department of Personnel and Training Office Order No. 8/3/2009-EO (SM-).I dated 25.02.2010 the President is pleased to appoint Shri Karan A. Singh, IAS (PB:84) as Protector General of Emigrants (Joint Secretary Level), in the Ministry of Overseas Indian Affairs w.e.f. 15.04.2010 (FN).

PRADEEP KUMAR SUREKA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 29th March 2010

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No. 13 of 2010 (F.No. A-39012/05/2010-AD.II)—The President is pleased to accept the resignation tendered by Shri C. Manickam, Assistant Commissioner, Directorate of Vigilance, New Delhi from Government Service with effect from 18.03.2010 (AN).

S.K. DEB, Under Secy.

No. 14 of 2010 (F.No. A-38012/03/2009-AD.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri P.S.B. Reddy, Deputy Commissioner of Central Excise, Mangalore with effect from 14.04.2010 (FN) under Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S.K. DEB, Under Secy.

The 12th April 2010

No. 15 of 2010 (F.No. A-38012/05/2009-AD.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri G. Vidyadhar Reddy, Deputy Commissioner of Customs, JNCH, Nhavasheva Port, Mumbai with effect from 15.04.2010 (FN) under Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S.K. DEB, Under Secy.

The 15th April 2010

No. 16 of 2010 (F.No. A-38012/06/2009-AD.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri C. Ravichandran, Deputy Commissioner of Customs, Anna International Airport, Chennai with effect from 27.04.2010 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S.K. DEB, Under Secy.

No. 17 of 2010 (F.No. A-39012/03/2010-Ad.II)—The President is pleased to accept the technical resignation tendered by Shri Pradeep P., Assistant Commissioner of Customs (Import), JNCH, Nhava Sheva w.e.f. 10.12.2009 (AN)

from Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) for enabling him to join the IAS.

S. K. DEB, Under Secy.

New Delhi, the 5th April, 2010

No. 3/2010 (F.No. 32014/1/2009-Ad.IA)—In pursuance of the Department of Expenditure, (CAS)'s O.M. No. A. 32022/01/2010-CAS dated 26th March, 2010, the President is pleased to appoint the following officers as Principal Private Secretary of CSSS in regular basis with immediate effect against the Select List years 2005, 2006 and 2007 :—

Select List Year 2005

S.No. Name

1. Sh. S.K. Gupta, PS
2. Ms. Krishna Kumari, PS

Select List Year 2006

Shri K.N. Sharma, PS

Select List Year 2007

Shri R.K. Verma, PS

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 16th March 2010

No. A-20011/239/2004-Estt.—In terms of Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972, as amended from time to time, the President is pleased to permit Shri Gulab Singh Arya, Private Secretary in the Ministry of Finance, Department of Financial Services to retire from the Government Service, voluntarily, with effect from 1st April, 2010(AN).

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

The 9th April 2010

No. A-19011/296/2010-Estt.—Consequent upon inclusion in the Select List of Principal Private Secretary of CSSS for the Select List year, 2005, the President is pleased to appoint Shri Neeraj Sagar, a regular Private Secretary in the CSSS cadre of Ministry of Agriculture as Principal Private Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance on regular basis with effect from the afternoon of 22nd March, 2010.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 7th April 2010

No. A-12026/6/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, an officer of CSSS for regular appointment as Grade-I (PPS) against the Select List Year

2005 in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Revised Pay Band + Grade Pay i.e. PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- with effect from 01.07.2005.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 12th April 2010

No. A-22015/2/2010-Admn.-I—The President is pleased to appoint Smt. Sarita Kunwar, Assistant Director (OL) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- PB-3 plus Grade Pay Rs. 5,400/- in Department of Expenditure, with effect from the forenoon of 1st April, 2010 and until further orders.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 17th February 2010

No. A-19011/3/2010-E.I—The President is pleased to appoint Shri S. K. Jain, CSS as Director, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/-, in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the forenoon of 16th February, 2010 and until further orders.

ANURAG SAXENA, Dir.

The 23rd February 2010

No. 6/2010 (A-32012/4/2009-E.I)—Consequent upon his inclusion in the Select List of 2005 for Grade-I of Central Secretariat Service (CSS) as per orders contained in Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2009-CS.I (U), dated the 7th January, 2010, the President is pleased to appoint Sh. Vijay Kumar (CSL No. 5285), CSS officer, Under Secretary (ad hoc), (presently on deputation as Senior Analyst in the Department of Agriculture & Cooperation), to Grade-I of CSS (Under Secretary) on regular basis in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, with effect from 01.07.2005 until further orders.

2. His inter-se seniority in Grade-I of CSS will follow the serial order given in the respective SL irrespective of his actual date of appointment to Grade-I.

3. The appointment of the Officer to the post of Under Secretary from the above Select List shall be subject to the final decision in the Civil Writ Petition No. 13352/2005 filed in the High Court of Delhi; OA No. 3294/2009 titled Sh. P. R. Sharma Vs. UOI in CAT, New Delhi and OA No. 2674/2009 titled Sh. P. S. Bhandari Vs. UOI & Ors.

ANURAG SAXENA, Dir.

No. 2010 (A-32012/4/2009-E.I)—Consequent upon his inclusion in the Select List of 2006 for Grade-I of Central Secretariat Service (CSS) as per orders contained in Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2009-CS.I

(U), dated the 7th January, 2010, the President is pleased to appoint Sh. R. S. Chatterjee (CSL No. 5417), CSS officer, Under Secretary (ad hoc), (presently on deputation as Under Secretary in the Prime Minister's Office), to Grade-I of CSS (Under Secretary) on regular basis in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, with effect from 01.07.2006 until further orders.

2. His inter-se seniority in Grade-I of CSS will follow the serial order given in the respective SL irrespective of his actual date of appointment to Grade-I.

3. The appointment of the Officer to the post of Under Secretary from the above Select List shall be subject to the final decision in the Civil Writ Petition No. 13352/2005 filed in the High Court of Delhi; OA No. 3294/2009 titled Sh. P. R. Sharma Vs. UOI in CAT, New Delhi and OA No. 2674/2009 titled Sh. P. S. Bhandari Vs. UOI & Ors.

ANURAG SAXENA, Dir.

The 2nd March 2010

No. A-19011/5/2010-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sanoj Kumar Jha, IAS (SK:97) as Deputy Secretary, in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 7,600/- with effect from the afternoon of 25th February, 2010 for the balance period of his Central Deputation tenure admissible to him, i.e., for a period of 3 years 9 months and 28 days, i.e., upto 25th December, 2013 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ANURAG SAXENA, Dir.

New Delhi, the 16th April 2010

No. A-4/3/2010-SEZ.—The President is pleased to appoint Shri V. N. Shewale, (ITS), Joint Director General of Foreign Trade, Office of Directorate General of Foreign Trade to the post of Development Commissioner Surat Special Economic Zone, Surat in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) Grade Pay Rs. 10,000/- with effect from 06.04.2010 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

R. K. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 7th April 2010

No. A-19011/01/2010-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 26/10/2009-EO (SM.I) dated 16th March, 2010, the President is pleased to appoint Shri Partha Sarathi Das, IA&AS (1994), as Director in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, for a period of five years w.e.f. the forenoon of 7th April, 2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

No. A-19011/1/2007-Estt.—On completion of his Central

Deputation tenure, Shri Sanjay Gupta, IRS (IT:94), Director in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, is relieved of his duties in the Ministry w.e.f. the forenoon of 12.04.2010 and his services are placed at the disposal of Central Board of Direct Taxes (CBDT), Department of Revenue, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 12th April 2010

No. A-19011/4/2010-HR-II—On the basis of the nomination made by Department of Official Language vide their Office Order No. 5/4/2010-OL (Services) dated 15.03.2010, the President is pleased to appoint Smt. Vineet Kulshrestha, Deputy Director (Official Language), Union Public Service Commission to the post of Deputy Director (Official Language) of Central Secretariat Official Language Service in the Pay Band of PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Fertilizers w.e.f. 01.04.2010 (F/N).

R. N. JUNEJA, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 9th April 2010

No. A-42013/1/2000-Admn.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the years 2004–2008 of the Officers of the Central Secretariat Service (CSS) for appointment to Grade-I (Under Secretary) of the service vide Department of Personnel & Training's OM No. 5/8/2009-CS.I (U) dated 07.01.2010, the President is pleased to appoint the following CSS officers of this Ministry, as Under Secretary on regular basis as per details given below :—

Sl. No.	Name	CSL No. and Select List Year
1.	Shri E. Robert Singh	4686-A Select List 2005
2.	Shri Kashi Nath	6102 Select List 2005
3.	Shri R. K. B. Patel	4907-A Select List 2006
4.	Shri S. K. Mohanty	5752 Select List 2007
5.	Shri Sanjay Kumar Singh	5848 Select List 2007

The above appointment will be deemed to have been made effective with effect from the 1st July of the corresponding Select List Year, for the purpose of approved service.

The above appointment will be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi; OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UOI in CAT, New Delhi; and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UOI & Ors.

S. K. NANDA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 21st January 2010

No. A-19011/22/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/6/2007-CS.II dated 21.12.2009 and Department of Science & Technology's Office Order No. A-12025/01/08-Admn.I(A) dated 13th Jan., 2010 and No. A-32011/02/03-Admn.I(A) dated 20.01.2010, Shri Ram Kishan, Sr. Principal Private Secretary is taken over on the strength of Department of Biotechnology with effect from the forenoon of 12th Jan., 2010.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 9th February 2010

No. 22012/41/2009-IFS-II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint Shri Ashok Dixit of the State Forest Service of Uttar Pradesh, to the Indian Forest Service with immediate effect against existing vacancies on the basis of inclusion of his names in the Select Lists of 1995-96 and to allocate him to Uttar Pradesh Cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

VIVEK SAXENA, Dir.

The 12th February 2010

No. 17013/01/2009-IFS.II—In exercise of the provisions contained in sub-regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists for promotion from State Forest Service of Andhra Pradesh to the Indian Forest Service for the year 2009 prepared in the Selection Committee meeting held on 21.12.2009 containing the name of following officers of the State Forest Service of Andhra Pradesh towards filling up of promotion quota vacancies available in Andhra Pradesh cadre of the Indian Forest Service :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Dr. P. Subba Raghavaiah	25.01.1961
2.	Shri C. P. Vinod Kumar	21.10.1963

VIVEK SAXENA, Dir.

New Delhi-110003, the 9th April 2010

No. 6-3/2008-FE(.)—The President is pleased to appoint following Senior Technical Assistants, to the post of Assistant Director in Forest Survey of India, Dehradun, in

the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- (Group 'A'-Pre-revised) with effect from 23.11.2009 :—

Sl. No.	Name
1.	Shri Dhara Singh (SC)
2.	Shri S. M. Ravi (SC)
3.	Shri R. K. Chaturvedi

MALTI RAWAT, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th April 2010

No. A.12025/02/2008-CHS.VI—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Gursimarjit Singh Chhatwal as Dental Surgeon in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation and to post him as Dental Surgeon at Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi with effect from the forenoon of 25th January, 2010 and until further orders.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 13th April 2010

No. A.12025/35/2007-CHS-III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vithalkumar Malleshi Betigiri to the post of Assistant Professor in the speciality of Cardio-Thoracic & Vascular-Surgery (CTVS) in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation with effect from the forenoon of the 11th January, 2008, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 9th April 2010

No. A-38013/7/2009-Admn.-I—Shri Shyam Lal Sharma, Section Officer of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 28.02.2010 (A.N.).

R. K. KALRA, Dy. Dir. Admn. (RKK)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 15th April 2010

No. 6-12/2008-INM—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Dr. M. K. Paliwal, a regular Junior Scientific Officer to the post of Assistant Director in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-), General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non Ministerial) under the National Centre of Organic Farming, Ghaziabad on ad hoc basis for a period of six months w.e.f. 29.01.2010 to 29.07.2010 or till the regular arrangement is made, or until further orders, whichever is earlier.

T. J. S. CHAWLA, Under Secy.

No. 6-1/2003-INM—The President is pleased to extend the adhoc appointment of Sh. R. P. Singh, a regular Junior Scientific Officer to the post of Assistant Director in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-), General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non Ministerial) under the National Centre of Organic Farming, Ghaziabad on adhoc basis for a period of six months w.e.f. 03.02.2010 to 03.08.2010 or till the regular arrangement is made, or until further orders, whichever is earlier.

T. J. S. CHAWLA, Under Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 8th April 2010

No. 2-5/2005(Part-I)—The President is pleased to appoint Sh. Umakant Khubalkar of Commission for Scientific & Technical, New Delhi to the Post of Deputy Director (Language) in the pre-revised Pay Scale of Rs. 10,000—15,200/- in Central Hindi Directorate, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education on deputation basis w.e.f. 01.04.2010 for an initial period of one year, which may be extendable for a maximum of three years.

K. P. J. GERALD, Under Secy.

No. 2-5/2005-Admn. (Part-I)—The President is pleased to appoint Dr. Pradip Kumar Sharma of KRB Girls' College Guwahati to the post of Deputy Director (Language) in the pre-revised Pay Scale of Rs. 10,000—15,200/- in Central Hindi Directorate, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education on deputation basis w.e.f. 30.03.2010 for an initial period of one year, which may be extendable for a maximum of three years.

K. P. J. GERALD, Under Secy.

New Delhi, the 31st March 2010

No. A-32011/1/2009-E.I—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2003 in pursuance of DoPT's OM No. 5/16/2007-CS.I dated 25th August, 2009, which was prepared under rule 12 (2) of the Central Secretariat Service Rules, 1962 and the Central Secretariat Service (Promotion to Grade-I and Selection Grade) Regulations Act, 1964 for appointment to the Grade-I of the CSS, the President is pleased to appoint Shri Om Prakash (CSL No. 4273), as regular Under Secretary w.e.f. 01.07.2003.

2. The appointment of the aforesaid officer shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the Hon'ble High Court of Delhi. The appointment of the aforesaid officer may be deemed to have been made effective with effect from 01.07.2003, for the purpose of approved service and for fixing their pay as Under Secretary on notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date, the officer had been appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

The 12th April 2010

No. A-32011/9/2006 E-I—The President is pleased to extend the Central Deputation tenure of Smt. Anita Kaul, IAS (KN : 79), Joint Secretary in the Ministry of Human Resource Development (Department of School Education and Literacy) for a period of three months beyond 31.03.2010.

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

New Delhi, the 15th April 2010

No. 36-18/2008-A.E.6/A.E.1—On the basis of recommendation of the Selection Committee meeting conducted by Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri A. H. Ganesh, Assistant of CSS Cadre of Ministry of Labour & Employment as Junior Administrative Officer (JAO) in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised), in the Directorate of Adult Education, New Delhi w.e.f. 01.04.2010 for a period of three years.

K. C. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 19th March 2010

No. 3-3/2009-Admn.—In pursuance of DoPT's Letter No. 4/6/2008-EO (MM-I), dated 21/12/2009, the President is pleased to appoint Shri L. Saikia, IRTS:94 as Director in Ministry of Women & Child Development with effect from 15.03.2010 (FN) for the balance period of his Central Deputation tenure i.e. upto 18.12.2013, subject to a maximum ceiling of 7 years in both the stints (Central Staffing Scheme and Non Central Staffing Scheme posts) w.e.f. the date of taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

A. P. SHRIVASTAVA, Under Secy.

New Delhi, the 31st March 2010

No. 4-54/1993-Admn.—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language's O.M. No. 5/4/2010-OL(S) dated 15th March, 2010, the President is pleased to relieve Shri J. L. Bhalla, Assistant Director (OL), Ministry of Women and Child Development with effect from the 31st March, 2010 (Afternoon) for taking up his new assignment as Deputy Director (OL), AYUSH Department, Ministry of Health & Family Welfare.

K. K. SHARMA, Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi-110001, the 26th March 2010

No. F6-29/2009-M-I—Consequent upon his selection by the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority appoints Shri Shiv Dutt Bakshi,

Senior Photographer, National Museum, New Delhi to the post of Photographic Officer, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2 with Grade Pay of Rs. 4,200/-) in the National Museum, New Delhi on regular basis with effect from 12.01.2009 (F/N).

N. P. JOSHI, Under Secy.

No. F-6-30/2009-M-I—Consequent upon his selection by the Departmental Promotion Committee, the competent authority appoints Dr. Samiuddin, Assistant Curator, Dr. Zakir Hussain Memorial Museum, Okhla, New Delhi to the post of Research Officer, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial in the National Museum, New Delhi in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- [(PB-2) with Grade Pay of Rs. 4,200/-] on regular basis with effect from 16.02.2009 (F/N).

N. P. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 5th April 2010

F. No. A-32013/1/2009-Admn.—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Under Secretary (Grade-I of CSS) on regular basis with effect from the date mentioned against their names, consequent upon their inclusion in the Select List for the year 2005, 2007 and 2008 of the Officers of the Central Secretariat Service (CSS) by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 5/8/2009-CS.I dated 07.01.2010 :—

Sl. No.	CSL No.	Name	Year of Select List	Date of regular Appointment (F/N)
1.	4710-A	Shri A. K. Saran	2005	01.07.2005
2.	5781	Shri Rajive Sabharwal	2007	01.07.2007
3.	5815	Shri Shiv Pratap Singh Tomar	2007	01.07.2007
4.	5968	Shri Shankar Lal	2008	01.07.2008
5.	6052	Shri H. M. Kundlia	2008	01.07.2008
6.	6268	Shri Gurucharan Singh (SC)	2006	01.07.2006

2. The pay of these officers in the post of Under Secretary will be fixed with effect from the date of promotion on regular basis notionally, but arrears of pay and allowances will be admissible from the date of actual appointment as Under Secretary. In addition, these officers will also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of his pay as provided under the provisions of FR 22. However, such officers, who were promoted as ad-hoc Under Secretary prior to 1st July of their Select List year and had availed the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option.

3. The appointment of above mentioned officers to the post of Under Secretary for the Select List mentioned against their names shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi, OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UOI in CAT, New Delhi and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UOI & Others.

MUKUL CHATTERJEE, Director

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 7th April 2010

No. A-19011/08-2009-Estt.-II—On attaining the age of superannuation, Ms. Asha Rani Nayar, has retired as Joint Director (Official Language) of the Central Secretariat Official Language Service of the Ministry of Social Justice and Empowerment from Govt. Service in the afternoon of 31st March, 2010.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

CORRIGENDUM

No. A-12025/1/95-Estt.-II—In this Ministry's Notification of even number dated 28.04.2009, for the expression "Pay Band-2 carrying Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/-" the following expression "Pay Band-3 carrying Pay Scale Rs. 15,600—39,100/-" is substituted.

2. Further, in this Ministry's Notification of even number dated 20.11.2009, for the expression "Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-)" the expression "Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-)" is substituted and for the expression "General Central Service, Gazetted" the expression "General Central Service, Group 'A', Gazetted" is substituted.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 15th April 2010

No. A-53011/1/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Shaik Mohammed Mastan, Personal Assistant, Railway Board, Ministry of Railways as First Personal Assistant to Minister of State (I/C) for Minority Affairs in the Pay Band PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 31.07.2009 (A/N).

2. The appointment of Shri Shaik Mohammed Mastan is on co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

GOPAL DASS, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 12th April 2010

No. 3(3)/2009-P-I—The President is pleased to appoint Smt. Seethalakshmi Sridhar, Deputy Director (in-situ/personal) on promotion as Deputy Director on regular basis in the Department of Information Technology in the Scale of Pay of

Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) Grade Pay of Rs. 6,600/- p.m. with effect from the forenoon of 07.04.2010.

2. She will be on probation for a period of two years w.e.f. the date of her appointment.

R. K. MANCHANDA, Joint Director

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 7th April 2010

No. E(O)III-2010/RN/08—Consequent upon his permanent absorption in RVNL, Shri B. S. Kalsi, SAG/IRSE, has resigned from Railway Service with effect from 10.03.2010.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)III-2010/RN/07—Consequent upon his permanent absorption in DMRC, Shri Prashant Rao, SG/IRSE, has resigned from Railway service with effect from 24.12.2009.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)III-2010/RN/16—Consequent upon his permanent absorption in RVNL, Shri Arun Kumar, SAG/IRSE, has resigned from Railway Service with effect from 29.01.2010(FN).

SHIVAJI RAKSHIT, Secretary
(Railway Board)

The 8th April 2010

No. E(GP)2006/1/36—The President is pleased to approve of the undermentioned Group 'B' Officer of Stores, Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Stores Service (IRSS) with effect from 01.07.2002 on the Railway mentioned.

PANEL FOR 2001-2002

Name of the Officer

N. E. Railway

Shri Jayanti Prasad (SC)

2. The appointment of the above officer is, however, subject to the final outcome of O.A. No. 1035/05 in Hon'ble Central Administrative Tribunal, Allahabad filed by Sh. S. R. Kiskoo and others.

SHIVAJI RAKSHIT, Secretary
(Railway Board)

No. E(GP)2006/1/36—The President is pleased to approve of the undermentioned Group 'B' Officer of Stores, Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Stores Service (IRSS) with effect from 15.10.2003 on the Railway mentioned.

PANEL FOR 2002-2003

Name of the Officer

N. E. Railway

Shri V. S. Jaipuriar (Working in E. C. Railway)

2. The appointment of the above officer is, however, subject to the final outcome of O.A. No. 1035/05 in Hon'ble Central Administrative Tribunal, Allahabad filed by Sh. S. R. Kiskoo and others.

SHIVAJI RAKSHIT, Secretary
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.03.2010 :—

1. Shri N. D. Sharma, Dy. Director (Official Language)
2. Smt. Prem Lata Chopra, Dy. Director (Official Language)
3. Smt. Santosh Mahajan, Section Officer
4. Shri Mool Chand, Section Officer
5. Shri Ranbir Singh, Section Officer

SHIVAJI RAKSHIT, Secretary
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Praveen Kumar, Member Mechanical, Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 31.03.2010, on attaining the age of superannuation.

SHIVAJI RAKSHIT, Secretary
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Jai Pal Singh, Private Secretary, Railway Board retired from service with effect from the afternoon of 28.02.2010, on attaining the age of superannuation.

SHIVAJI RAKSHIT, Secretary
(Railway Board)

The 13th April 2010

No. E(O)III-2010/RN/17—Consequent upon his permanent absorption in IRCON International Limited Shri S. K. Sinha, SAG/IRSE, has resigned from Railway Service with effect from 10.03.2010 (FN).

SHIVAJI RAKSHIT, Secretary
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 31st March 2010

No. A-32011/1/08-MA—The President is pleased to appoint Shri Yogesh Bagga, Engineer & Ship Surveyor as Deputy Chief Surveyor in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP 8,700/- in the MMD, Kandla with effect from 12.03.2010 (FN) and until further orders.

A. R. SENGUPTA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 31st March 2010

No. A-38013/2/2010-Estt.—Shri Hari Niwas (SL/2003), Section Officer in the Ministry of Shipping, on attaining the age of superannuation, has retired from Government service on 31.03.2010 (AN).

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 24th December 2008

No. 46/3/2008-R&R—In terms of section 113 (2) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Justice Shri M. Karpaga Vinayagam as Chairperson of the Appellate Tribunal for Electricity for a period of three years from the forenoon of the 14th November, 2008 or till he attains the age of 70 years, whichever is earlier.

MALAY SHRIVASTAVA, Director

New Delhi-110001, the 21st April 2010

No. 25/7/2009-R&R—In terms of section 76 (6) read with section 89 (1) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Shri M. Deena Dayalan as Member of the Central Electricity Regulatory Commission for a period of five years from the forenoon of the 4th March, 2010 or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

PRANAY KUMAR, Director

No. 46/1/2009-R&R—In terms of section 113 (3) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Shri Rakesh Nath as Technical Member of the Appellate

Tribunal for Electricity for a period of three years from the forenoon of the 3rd March, 2010 or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

PRANAY KUMAR, Director

New Delhi, the 8th April 2010

No. 05/2010 (F.No. 4/12/2009-Adm.-II)—In pursuance of the provisions contained in the Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/1/2010-CS-I(S) dated 25th February, 2010 the following regular assistant of the Ministry of Power Cadre of CSS, presently officiating as Section Officer, on ad-hoc basis, is appointed to the grade of Section Officer of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2006.

Name	Present posting
Shri J. P. Bahotia	Ministry of Power

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

The 9th April 2010

No. 7/2010 (F.No. 1/5/2009(Pt)-Adm.-II)—The President is pleased to appoint Shri Malay Shrivastava, IAS (MP:90), Director, Ministry of Power, as Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Power (Shri Bharatsinh Solanki) with effect from the forenoon of the 9th February, 2010 till his posting as Joint Secretary subsequent to his empanelment as Joint Secretary or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest. He counts his tenure at the Centre with effect from 24.12.2007.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 8th April 2010

No. A-22011/2/2005-Adm.-I—The President is pleased to appoint Sh. A. C. Pandey, IAS (UP:84) as Joint Secretary in the Ministry of Labour & Employment with effect from the forenoon of 5th April, 2010 until further orders.

PRADEEP GAUR, Under Secy.

The 16th April 2010

No. A-19012/1/2010-Adm.-I—The President is pleased to promote Sh. Satya Pal, a Senior Hindi Translator of the Central Secretariat Official Language Service to the post of Assistant Director (OL) on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 19th March, 2010 until further orders.

PRADEEP GAUR, Under Secy.